




पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एक नवरत्न पीएसयू

कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

30 सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही



उज्ज्वल भविष्य के
लिए निधीयन

विषय – सूची

क समेकित कार्य-निष्पादन


- 01 पीएफसी : एक नजर
- 02 अर्जन संबंधी अपडेट
- 03 प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

ख एकल कार्य-निष्पादन

- 01 मुख्य विशेषताएं
- 02 अर्जन संबंधी अपडेट
- 03 परिसंपत्ति गुणवत्ता
- 04 प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन
- 05 शेयरधारकों का दृष्टिकोण

क. समेकित कार्य-निष्पादन

1 पीएफसी : एक नजर



1. ईईएसएल – एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिस लिमिटेड

ईईएसएल में 15% हितधारिता पीएफसी (24.97%) और आरईसी (22.18%) समेकित हितधारिता है।

2 અર્જન સંબંધી અપડેટ



टिप्पणी: नेट वर्थ में गैर-नियंत्रक ब्याज शामिल है।

मुख्य समेकित वित्तीय



(करोड़ रुपए में)


	तिमाही 2 वित्तीय वर्ष 20	तिमाही 1 वित्तीय वर्ष 20	तिमाही 2 वित्तीय वर्ष 19	छमाही 1 वित्तीय वर्ष 20	छमाही 1 वित्तीय वर्ष 19
ब्याजगत आय	15,397	14,510	12,994	29,907	25,361
ब्याजगत व्यय	10,153	9,938	8,450	20,091	16,609
निवल ब्याजगत आय	5,244	4,572	4,544	9,816	8,752
कर पश्चात लाभ	2,497	2,900	2,509	5,397	5,373
कुल संचयी आय	2,269	2,899	2,462	5,167	5,105

(मार्च - समाप्त वर्ष)


विश्लेषण उद्देश्य के लिए आंकड़ों को पुनःएकत्रित/पुनःएकीकृत किया गया है। इसलिए, रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के साथ सामंजस्य नहीं है।

3 प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

30.09.2019 को परिसंपत्ति ऋण बहीखाता 6,26,150 करोड़ रुपए



छमाही 1'20 को 62,439 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया



अधि प्राप्ति – पीएफसी विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी है

ख. एकल कार्य-निष्पादन



1 उपलब्धियां

छमाही 1'20 एकल उपलब्धियां



राज्य विद्युत कंपनियों को ऋण देने के लिए केएफ़डबल्यू के साथ यूरो 200 मिलियन ऋण करार

01

02


समाधान पश्चात जीएमआर छत्तीसगढ़ ऋण मानक परिसंपत्ति में

सकल चरण III परिसंपत्तियां 9.05%- पर तिमाही 1'20 से 56 बीपीएस

03

04

ति1'20 से सीआरएआर में 53 बीपीएस बढ़ोतरी 30.09.2019 तक 18.37% सीआरएआर – टीयर I - 13.33%, टीयर II – 5.04%



2 अर्जन संबंधी अपडेट

राजस्व एवं वृद्धि

(करोड़ रुपए में)

	तिमाही 2 वि. वर्ष 20	तिमाही 1 वि. वर्ष 20	तिमाही 2 वि. वर्ष 19	छमाही 1 वि. वर्ष 20	छमाही 1 वि. वर्ष 19
ब्याजगत आय	8,004	7,545	6,943	15,548	13,574
ब्याजगत व्यय	5,510	5,350	4,749	10,860	9,374
निवल ब्याजगत आय	2,494	2,195	2,194	4,688	4,200
कर पश्चात लाभ ¹ व ²	1,157	1,383	1,367	2,540	2,751
संचयी प्रावधान (चरण I+II+III)	16,275	16,588	17,170	16,275	17,170
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	3,093	3,826	3,506	3,093	3,506

(मार्च – समाप्त वर्ष)

1. पीएफसी ने कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 115 बीएए के अंतर्गत ऑप्शन उपयोग किया है। परिणामस्वरूप, कम कर दरों पर आस्थगित कर देयता के पुनः मापन के कारण तिमाही 1'20 एवं छमाही 1'20 के लिए पीएटी। 2. इसके अतिरिक्त, यह परिकल्पना की गई है कि आरईसी अधिग्रहण के लिए प्रदत्त 14,500 करोड़ रुपए की अधिग्रहण कीमत का प्रभाव आरईसी द्वारा घोषित लाभांश के माध्यम से वर्ष के दौरान लाभ में किया जाएगा, यदि कोई हो।

अनुपात वार्षिक और दैनिक आधार पर हैं और इसमें विनियम/लाभ हानि शामिल नहीं हैं और उन्हें राउंड ऑफ किया गया है। इसके अतिरिक्त तिमाही 2'19/छमाही 1'19 के लिए रिपोर्टेड आंकड़ों को दिनांक 01.04.2017 से पीएफसी जैल के समामेलन के अनुसरण में तुलनीय बनाने के लिए पुनः दोहराया गया है।


मुख्य अनुपात

(अनुपात % में)

	तिमाही 2 वि. वर्ष 20	तिमाही 1 वि. वर्ष 20	तिमाही 2 वि. वर्ष 19	छमाही 1 वि. वर्ष 20	छमाही 1 वि. वर्ष 19
लाभ पर अर्जन परिसंपत्ति	10.60	10.61	10.60	10.60	10.56
निधियों की लागत	7.82	7.90	8.09	7.86	8.07
अर्जन परिसंपत्तियों पर ब्याज स्प्रेड	2.78	2.71	2.50	2.74	2.49
अर्जन परिसंपत्तियों पर मार्जिन निवल ब्याज	3.13	3.06	3.33	3.07	3.28
नेट वर्थ (पूँजी शेयर + ऑल रिजर्व)	₹45,445 करोड़	₹44,709 करोड़	₹38,411 करोड़	₹45,445 करोड़	₹38,411 करोड़

(मार्च – समाप्त वर्ष)

अनुपात वार्षिक और दैनिक आधार पर हैं और इसमें विनियम/लाभ हानि शामिल नहीं हैं और उन्हें राउंड ऑफ किया गया है। इसके अतिरिक्त तिमाही 2'19/छमाही 1'19 के लिए रिपोर्टेड आंकड़ों को दिनांक 01.04.2017 से पीएफसी जैल के समामेलन के अनुसरण में तुलनीय बनाने के लिए पुनः दोहराया गया है।



3 परिसंपत्ति गुणवत्ता


परिसंपत्ति गुणवत्ता स्नैपशॉट



30.09.2019 को 3,25,434 करोड़ रुपए ऋण बही

2,68,786 करोड़ रुपए सरकारी
ऋण परिसंपत्तियां

निजी ऋण परिसंपत्ति 56,648
करोड़ रुपए



सभी सरकारी ऋण परिसंपत्तियां
निरंतर सेवा में हैं

27,182 करोड़ रुपए की निजी ऋण
परिसंपत्तियां निरंतर सेवा में हैं

29,466 करोड़ रुपए दबाबग्रस्त

ऋण परिसंपत्तियों में से 91% नियमित रुप से ऋण चुका रही हैं एवं किसी दबाव की परिकल्पना नहीं की गई है।

30.09.2019 को प्रावधान स्थिति

(करोड़ रुपए में)

	चरण I एवं II	चरण III	सकल ऋण परिसंपत्तियों का % चरण III (एनपीए)	कुल
बकाया ऋण परिसंपत्तियां				
- सरकारी क्षेत्र	2,68,786	-	शून्य	2,68,786
- निजी क्षेत्र	27,182	29,466	9.05%	56,648
कुल बकाया राशि	2,95,968	29,466	9.05%	3,25,434
कुल प्रावधान राशि	726	15,549	-	16,275
निवल परिसंपत्तियां	2,95,242	13,917	4.28%	3,09,159

निजी क्षेत्र की चरण III रिसंपत्तियों (एनपीए) के निमित्त 53% प्रावधान

टिप्पणी – इंड एस के अंतर्गत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) कार्यप्रणाली के अनुसार सभी ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए, ईसीएल की गणना स्वतंत्र एजेंसी आईसीआरए मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसिस लिमिटेड (आईएमएसीएस) द्वारा की गई है।


समाधान स्थिति – चरण III परिसंपत्तियां (1/3)

ऋण परिसंपत्तियों की चरण 3 की समाधान स्थिति 29,466 करोड़ रुपए

एनसीएलटी समाधान

एनसीएलटी में
14,704 करोड़ रुपए

15 परियोजनाएं
64% प्रावधान



बाहरी एनसीएलटी समाधान

एनसीएलटी के बाहर ₹14,762 करोड़
का समाधान

14 परियोजनाएं
42% प्रावधान

चरण III परिसंपत्तियों के निमित्त 72% प्रावधान/रिसर्व* उपलब्ध हैं।

एनसीएलटी में 15 परियोजनाएं 14,704 करोड़ रुपए की हैं

आवेदन भरे एवं प्रस्तुत किए गए

11
परियोजनाएं

₹ 9,368
करोड़

63%
प्रावधान

आवेदन भरे लेकिन प्रस्तुत नहीं किए गए

2
परियोजनाएं

₹ 3,701
करोड़

53%
प्रावधान

एनसीएलटी में परिसमापन आदेश पारित किए गए

2
परियोजनाएं

₹ 1,635
करोड़

93%
प्रावधान

समाधान स्थिति – चरण III परिसंपत्तियां (3/3)

एनसीएलटी बाहरी समाधान 14 परियोजनाएं 14,762 करोड़ रुपए

आरबीआई परिपत्र* के अंतर्गत जनवरी' 2020 में समाधान

4
परियोजनाएं

₹ 9,132
करोड़

48%
प्रावधान

आरबीआई परिपत्र* के अंतर्गत जुलाई'2020 में समाधान

1 परियोजना

₹ 3,001
करोड़

40%
प्रावधान

आरबीआई परिपत्र* के द्वारा प्रभावित परियोजना का
समाधान नहीं किया गया*

9
परियोजनाएं


₹ 2,629
करोड़

24%
प्रावधान



4 प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

टी एवं डी और नवीकरणीय व्यापार की ओर बढ़ता



	30.09.2019 को	30.09.2018 को
सकल ऋण परिसंपत्तियां	3,25,434	2,93,083
परियोजना-वार		
उत्पादन	2,28,644	2,12,635
- नवीकरणीय ऊर्जा	18,709	13,831
- अन्य नवीकरणीय ऊर्जा	2,09,934	1,98,804
पारेषण	26,693	23,210
संवितरण	67,371	53,834
अन्य	2,727	3,405
क्षेत्र-वार		
सरकारी क्षेत्र	2,68,786	2,40,783
निजी क्षेत्र	56,648	52,300

संवितरण – संघटक




(करोड़ रुपए में)

	तिमाही 2 वि. वर्ष 20		तिमाही 2 वि. वर्ष 19		छमाही 1 वि. वर्ष 20		छमाही 1 वि. वर्ष 19	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
संवितरण	18,366	100%	17,505	100%	28,833	100%	30,486	100%
परियोजना-वार								
उत्पादन	8,712	47%	5,730	33%	15,195	53%	10,648	35%
पारेषण	1,693	9%	2,424	14%	2,576	9%	2,801	9%
वितरण	7,758	42%	9,276	53%	10,810	37%	16,661	55%
अन्य	203	1.1%	75	0.4%	251	1%	377	1%
क्षेत्र-वार								
सरकारी क्षेत्र	16,947	92%	16,524	94%	24,038	83%	28,442	93%
निजी क्षेत्र	1,419	8%	981	6%	4,795	17%	2,045	7%

अच्छी तरह से प्रबंधित देयता प्रोफाइल

दिनांक 30.09.2019 तक बकाया ऋण के 2,82,261 रुपए



- नामित रुपए बॉण्ड्स
- बैंक/वित्तीय संस्थानों ऋण अवधि रुपए
- विदेशी मुद्रा ऋणकर्ता
- वाणिज्यिक दस्तावेज
- सबॉर्डिनेटेड बॉण्ड्स
- अन्य (54 ईसी बॉण्ड, सीसी/ओडी/लाइन ऑफ क्रेडिट की तरह)

केएफडब्ल्यू के साथ ईयूआर 200 मिलियन का ऋण करार
राज्य धारित कंपनियों के वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ऋण देना



निधियन प्रोफाइल की विविधता
घरेलू क्षेत्र से 85% एवं विदेशी मुद्रा स्रोत से 15%



तिमाही 1'20 में 5% के निमित्त कुल विविध दायित्व का 1%
पर सीपी



8 वर्षों तक अवशिष्ट परिपक्वता के साथ एफसीएल
74% कुल एफसीएल पोर्टफोलियो के लिए 45%
विनियम जोखिम हेजिंग



बहुआयामी विविध दायित्व

30.09.2019 तक
2,82,261 करोड़
रुपए का बकाया
ऋण

घरेलू बॉण्ड्स
1,79,903 करोड़ रुपए

बैंकों/वित्तीय संस्थानों से आरटीएल
46,699 करोड़ रुपए

विदेशी मुद्रा ऋणकर्ता
41,324 करोड़ रुपए

वाणिज्यिक पेपर
2,906 करोड़ रुपए

सबॉर्डिनेटेड बॉण्ड्स
9,212 करोड़ रुपए

54ईसी बॉण्ड्स
1,313 करोड़ रुपए

अन्य (सीसी/ओडी/लाइन ऑफ क्रेडिट)
905 करोड़ रुपए

कम लागत निधियों तक पीएफसी की पहुंच



54ईसी संसाधन
जुटाव में तिमाही
1'20 33% की वृद्धि

54ईसी मुख्य विशेषताएं

पात्र निवेशक



व्यक्ति विशेष, एचयूएफ, एनआरआई, एफआई, साझेदारी बैंक, म्यूचुअल फंड बीमा कंपनी, पीएफ फंड

अवधि



अनुमानित (डीमंड) आबंटन तारीख से 5 वर्ष

कूपन दर



5.75% प्रति वर्ष

निवेशकों के लिए हितलाभ


पीएफसी के 54ईसी बॉण्डों में निवेश पर 50 लाख तक की पूंजीगत परिसंपत्ति छूट का हस्तांतरण करने पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ



5 शेयरधारकों का दृष्टिकोण

शेयरधारकों का दृष्टिकोण

इक्विटी बाजार मूल्यांकन अनुपात वृद्धि की संभावना इंगित करते हैं



ईपीएस (वार्षिक) रु. 19.24

प्रति शेयर बही मूल्य रु.172

अर्जन अनुपात की कीमत 5.8

बही मूल्य अनुपात की कीमत 0.65

उपर्युक्त अनुपात छमाही 1'20 के लिए हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक बीएसई से उपलब्ध क्लोजिंग शेयर मूल्य के आधार पर हैं।

धन्यवाद!
कोई प्रश्न?

आप investorrelations@pfcindia.com पर पीएफ़सी की निवेशक संबंध टिम से संपर्क कर सकते हैं।

Join us:    @pfclindia  www.pfcindia.com

Disclaimer



- ▷ The presentation is prepared based on stand-alone unaudited financial statements of PFC for quarter ended 30.09.2019
- ▷ There is a possibility of Ind AS financial results and the additional disclosures to be updated, modified or amended because of adjustments which may be required to be made on account of introduction of new standards or its interpretation, receipt of guidelines or circulars from regulatory bodies and/or Reserve Bank of India
- ▷ This presentation may contain statements which reflect Management's current views and estimates and could be construed as forward looking statements. The future involves uncertainties and risks that could cause actual results to differ materially from the current views being expressed. Potential uncertainties and risks include factors such as general economic conditions, currency fluctuations, competitive product and pricing pressures, industrial relations and regulatory developments.
- ▷ We do not update forward-looking statements retrospectively. Such statements are valid on the date of publication and can be superseded.
- ▷ Figures are regrouped / reclassified to make them comparable.
- ▷ 'Analytical data' are best estimates to facilitate understanding of business and NOT meant to reconcile reported figures.
- ▷ Answers will be given only to non-price sensitive questions.
- ▷ This presentation is for information purpose only and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell any securities of PFC. Any action taken by you on the basis of the information contained in the presentation is your responsibility alone and PFC or its directors or employees will not be liable in any manner for the consequence of such actions taken by you.